



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1751]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 16, 2018/वैशाख 26, 1940

No. 1751]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 16, 2018/VAISAKHA 26, 1940

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2018

का.आ. 1943(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 30 जनवरी, 2018 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 433(अ), तारीख 30 जनवरी 2018 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् "द टाइम्स ऑफ इण्डिया" (अंग्रेजी) और "संदेश" (गुजराती) में तारीख 23 फरवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था;

और एक आक्षेप प्राप्त हुआ था और उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया तथा नियमानुसार निस्तारण किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का अवसंरचना सहित या उसके बिना भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिले का नाम : बनासकांठा

तहसील का नाम : अमीरगढ़

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	सर्वे संख्या / ब्लॉक संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टर में	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	किडोतर	290	निजी	कृषि भूमि	0.2970	भील विराभाई राजाभाई भील पुनाभाई राजाभाई भील सोनाभाई राजाभाई भील रत्नाबेन राजाभाई भील कानुबेन राजाभाई

[फा. सं. .2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/938]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं—1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2018

S.O. 1943(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 433(E), dated the 30th January, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 30th January, 2018 and issued under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Banaskantha, in the State of Gujarat;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, “The Times of India” (English) and “Sandesh” (Gujarati) dated the 23rd February, 2018 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And whereas, one objection has been received and the same was considered and resolved as per rule by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in Banaskantha district in the State of Gujarat.

Name of District: Banaskantha

Name of Tehsil: Amirgadh

Serial Number	Name of the Village	Survey Number/ Block Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectares	Name of the Land owner / Intersted persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Kidotar	290	Private	Agriculture	0.2970	Bhil Virabhai Rajabhai Bhil Punabhai Rajabhai Bhil Sonabhai Rajabhai Bhil Ratnaben Rajabhai Bhil Kanuben Rajabhai.

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/938]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)